



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2005/कार्तिक 20, 1927

No. 453]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2005/KARTIKA 20, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

सं. 95/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 660(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद सं. 283110 20 के अंतर्गत आने वाले, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए, सोडियम फॉरमाल्डीहाईड सल्फाक्सीलेट (एसएफएस) (जिसे इसमें इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है), के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 29 अगस्त, 2005 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/25/2004-डीजीएडी, तारीख 26 अगस्त, 2005 में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- (i) संबद्ध देश से भारत को संबद्ध माल का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;
- (ii) घरेलू उद्योग को इससे वास्तविक क्षति पहुंची है;
- (iii) यह क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है;

और, अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल के सभी निर्यातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अधोलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में वर्णित देश में उदगमित, उक्त सारणी के स्तम्भ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद सं. के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तम्भ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देश से, उक्त सारणी के स्तम्भ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तम्भ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि के समतुल्य, जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तम्भ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, के दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

		सारणी						
क्रम सं.	टैरिफ मद सं.	माल का विवरण	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन करेंसी इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) (10)
1.	28311020	सोडियम फोरमालडीहाईड सल्फाक्सीलेट (एसएफएस)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	बुक्सी सिटी डोंगटायई फाईन कैमिकल कं. लि.	बुक्सी ग्रीन एपल कैमिकल इंडस्ट्री कम्पनी लि.	469.17	मीट्रिक अमरीकी टन डालर
2.	28311020	सोडियम फोरमालडीहाईड सल्फाक्सीलेट (एसएफएस)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	बुक्सी सिटी डोंगटायई फाईन कैमिकल कं. लि.	कोई	469.17	मीट्रिक अमरीकी टन डालर
3.	28311020	सोडियम फोरमालडीहाईड सल्फाक्सीलेट (एसएफएस)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	बुक्सी सिटी डोंगटायई फाईन कैमिकल कं. लि. के सिवाय अन्य कोई भी	कोई	655.13	मीट्रिक अमरीकी टन डालर
4.	28311020	सोडियम फोरमालडीहाईड सल्फाक्सीलेट (एसएफएस)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी	बुक्सी सिटी डोंगटायई फाईन कैमिकल कं. लि. के सिवाय अन्य कोई भी	कोई	655.13	मीट्रिक अमरीकी टन डालर
5.	28311020	सोडियम फोरमालडीहाईड सल्फाक्सीलेट (एसएफएस)	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	655.13	मीट्रिक अमरीकी टन डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण को तारीख जो कि 10 मई, 2006 तक प्रभावी होगा, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनियम दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) की उप-खण्ड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनियम दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/158/2005-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2005

No. 95/2005-CUSTOMS

G.S.R. 660(E).—Whereas, in the matter of import of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) (hereinafter also referred to as the subject goods), falling under tariff item number 28311020 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), the designated authority in its preliminary findings vide notification No. 14/25/2004-DGAD, dated the 26th

August, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th August, 2005, has come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) the injury has been caused by the dumped imports from the subject country;

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3), of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), and produced by the producer as specified in the corresponding entry in column (6), when exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), by the exporter as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Tariff item No.	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	28311020	Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS)	People's Republic of China	People's Republic of China	Wuxi City Dongtai Fine Chemical Co. Ltd.	Wuxi Greenapple Chemical Industry Company Ltd.	469.17	Metric Tonne	Dollar of United States of America
2.	28311020	Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS)	People's Republic of China	People's Republic of China	Wuxi City Dongtai Fine Chemical Co. Ltd.	Any	469.17	Metric Tonne	Dollar of United States of America
3.	28311020	Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS)	People's Republic of China	People's Republic of China	Any (other than Wuxi City Dongtai Fine Chemical Co. Ltd.)	Any	655.13	Metric Tonne	Dollar of United States of America
4.	28311020	Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS)	People's Republic of China	Any country except People's Republic of China	Any (other than Wuxi City Dongtai Fine Chemical Co. Ltd.)	Any	655.13	Metric Tonne	Dollar of United States of America
5.	28311020	Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS)	Any Country except People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	655.13	Metric Tonne	Dollar of United States of America

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective up to and inclusive of the 10th day of May, 2006, and shall be payable in Indian currency.

Explanation :—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such, anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of Sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/158/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.